

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 4]

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 1, 1972/पौष 11, 1893

No. 4]

NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 1, 1972/PAUSA 11.1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

ORDER

New Delhi, the 1st January, 1972

G.S.R. 6(E)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2), read with clause (h) of sub-rule (3), of rule 114 of the Defence of India Rules, 1971, the Central Government, being of the opinion that it is necessary and expedient so to do for securing the maintenance of supplies and services essential to the life of the community, and for securing the equitable distribution and availability of jute textiles at fair prices, hereby fixes the price mentioned in column (3) of the First Schedule appended to this Order as the maximum ex-factory price at which the varieties of jute textiles mentioned in the corresponding entries in column (2) of the said Schedule shall be purchased or sold during the month of January, 1972.

Provided that the price so fixed in respect of the variety of jute textiles mentioned in Serial No. 1 of the First Schedule appended to this Order shall be reduced to the extent specified in column (2) or column (3) of the Second Schedule appended to this Order in respect of the minimum breaking strength specified in the corresponding entries in column (1) of the said Second Schedule.

Provided further that the price specified in this Order is liable to be revised and finally fixed at such rate as the Tariff Commission recommends and the price so finally fixed shall be the price at which the supplier is entitled to be paid for deliveries made in the month.

Explanation : For the purposes of this Order, the price specified in the First Schedule or Second Schedule appended to this Order shall be exclusive of the duty of excise and the sales tax which shall be paid in addition to the ex-factory price by the purchaser at actuals.

2. Nothing in this Order shall apply to any quantity of jute which may be exported during the period specified in paragraph 1 pursuant to any contract entered into before the commencement of this Order.

THE FIRST SCHEDULE

S. No.	Category of jute bag	Minimum ex-factory price
(1)	(2)	(3)
1.	Standard B Twill bags of the size 44"×26½" weight 2½ lbs. per bag, 6×8 3 blue, dry sewn and conforming in all other respects to the current ISI Specification (No. IS:2566-1965 as amended up-to-date)	205.63 per 100 bags
2.	DW Flour Bags 44"×28" HD weight in proportion 56"×28" HD, 2½ lbs. per bag 7×9 or 8×8 plain, dry sewn.	184.92 per 100 bags
3.	DW Flour Bags 40"×28" HD, WIP to 56"×28" HD. 2½ lbs. per bag, 7×9 or 8×8, plain, dry sewn.	168.11 per 100 bags

THE SECOND SCHEDULE

Minimum breaking strength	Reduction in the price per 100 bags	
	Warp way	Weft way
(1)	(2)	(3)
ISI Standard Breaking Strength	160 Kg. Rs.	165 Kg. Rs.
160	—	0.55
155	0.39	1.02
150	1.06	1.50
145	1.62	2.11
140	2.24	3.42
135	2.86	4.27
130	3.42	..

[No. 18012/1/71-Tex(D).]

B. D. KUMAR, Jt. Secy.

विदेश व्यापार मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1972

सा० क० नि० 6.(अ)—भारत रक्षा नियम, 1971 के नियम 114 के उप-नियम (3) के खंड (एच) के साथ पठित उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, ऐसी राय होने पर कि समाज के जीवन के लिये अत्यावश्यक वस्तुओं

की मज्जाई और तत्सम्बन्धी सेवाओं को जारी रखने के उद्देश्य से और पटसन के वस्त्रों के न्यायोचित वितरण और उचित मूल्यों पर उनकी उपलब्ध के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक और उचित है, एतद्वारा, इस आदेश से संलग्न प्रथम अनुसूची के कालम (3) में उल्लिखित मूल्य, ऐसे अधिकतम एक्स-फैक्टरी मूल्य के रूप में निर्दिष्ट की जाती है, जिस पर उक्त अनुसूची के कासम 2 की तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित पटसन के वस्त्रों की किस्म जनवरी, 1972 के माग में खरीदी या बेची जाएगी।

परन्तु इस आदेश से संलग्न प्रथम अनुसूची के क्रम संख्या 1 में उल्लिखित पटसन के वस्त्रों की किस्म के बारे में इस प्रकार से निश्चित किये गये मूल्य को, इस आदेश से संलग्न द्वितीय अनुसूची के कालम (1) की तदनुसूची प्रविष्टियों में निर्दिष्ट न्यूनतम धारण क्षमता (ब्रेकिंग स्ट्रेथ) के अनुसार उक्त द्वितीय अनुसूची के कालम (2) या कालम (3) में बताया गई सीमा तक घटाया जायेगा।

परन्तु आगे इस आदेश में निर्दिष्ट कीमत संशोधित की जा सकती है, और अन्त में ऐसी दर पर निर्धारित की जाएगी जिसकी टैरिफ आयोग सिफारिश करे तथा इस प्रकार अन्तिम रूप से निर्धारित कीमत वह कीमत होगी जिसपर मभरक को जनवरी, 1972 में सुपुर्दगियों के लिये भुगतान प्राप्त करने का हक है।

स्पष्टीकरण : इस आदेश के प्रयोजन के लिये, इस आदेश से संलग्न प्रथम या द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट मूल्य में उत्पादन शुल्क और बिक्री कर शामिल नहीं है, जिन्हें खीदार को ही, वास्तविक आकड़ों के आधार पर, एक्स-फैक्टरी मूल्य के अतिरिक्त अदा करना होगा।

2. इस आदेश में दी हुई कोई भी बात पटसन की ऐसी किसी भी मात्रा पर लागू नहीं होगी, जो कि इस आदेश के लागू होने से पहले किये गये किसी भी ठेके के अनुसरण में पैरा 1 में निर्दिष्ट अवधि के दौरान निर्यात की गई हो।

प्रथम अनुसूची

क्रम संख्या	पटसन के बोरों का दर्जा	अधिकतम एक्स-फैक्टरी मूल्य
1	2	3
1	स्टैडर्ड बीटबिल बोरे-साइज 44" × 26½" वजन 2½" पौड प्रति बोरा 6 × 8, 3 बल्यू, खुश्क मिला हुआ और शेप सभी प्रकार से वर्तमान आई० एम० आई० की विशिष्टियों के अनुरूप हों (संख्या आई० एम० 2566-1965 अद्यतन यथा संशोधित)	205.63 रुपये प्रति 100 बोरे
2	डी डबल्यू आर्टे के बोरे-44" × 28" एच० डी०, अनुपात के अनुसार वजन, 56" × 28" एच० डी०, 2½ पौड प्रति बोरा, 7 × 9 या 8 × 8, सादा खुश्क मिला हुआ।	184.92 रुपये प्रति 100 बोरे
3	डी० डबल्यू आर्टे के बोरे 40" × 28" एच० डी०, डबल्यू० आई० पी० में 56" × 28" एच० डी० 2½ पौड प्रति बोरा, 7 × 9 या 8 × 8, सादा खुश्क मिला हुआ।	168.11 रुपये प्रति 100 बोरे

द्वितीय अनुसूची

धारण क्षमता (ब्रेकिंग स्ट्रैथ)	प्रति 100 बोरों के मूल्य में कमी	
	(ताने में)	(बाने में)
1	2	3
आई०एस०आई०स्टैंडर्ड ब्रेकिंग स्ट्रैथ	160 किलोग्राम रूपये	165 किलोग्राम रूपये
160	—	0.55
155	0.39	1.02
150	1.06	1.50
145	1.62	2.11
140	2.24	3.42
135	2.86	4.27
130	3.42	..

[सं० 18012/1/71-टेक्स (डी)]

बी० डी० कुमार, संयुक्त सचिव ।